

एटीएम मशीन क्रय करने हेतु निविदा फार्म

प्रति,

प्रबंध निदेशक

दि सीतामढ़ी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०,

डुमरा कोर्ट, सीतामढ़ी

जिला : सीतामढ़ी (बिहार)

पिन : 843301

विषय:- दि सीतामढ़ी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि० अंतर्गत जिला सीतामढ़ी/शिवहर में पाँच एटीएम मशीन स्थापित करने हेतु निविदा।

1. निविदाकर्ता का पूरा नाम एवं पूर्ण पता
2. दूरभाष क्रमांक लैंडलाइन एवं मोबाइल नंबर
3. PAN Number
4. GST Number
5. एटीएम मशीन के निर्माता कंपनी के नाम
6. निविदा की दर प्रति मशीन
7. प्रति मशीन टैक्स की दर व राशि
8. कोई अतिरिक्त शुल्क यदि हो तो

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

मोबाइल नं०.....




एटीएम मशीन हेतु आवश्यक मापदण्ड

दी सीतामढ़ी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, सीतामढ़ी के अधीनस्थ शाखाओं में एटीएम मशीन क्रय कर लगाया जाना है उक्त मशीने वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होना आवश्यक है तथा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एटीएम मशीन सॉफ्टवेयर के किये जाने वाले परिवर्तन / सुधार किये जाने योग्य हो ।

Basic Common Configuration of CD Make.....				Res pon se Yes /No	
Sr. No	Item		Specifications		
1	Main Controller	CPU	i5 Processor	3.7 GHz	
		Memory	DDR Memory	8GB DDR-4	
		Storage Device	HDD	1 TB -SATA Type	
			2nd HDD	1 TB -SATA Type	
			ODD	Optional	
		Operating System	Windows 10		
		Expansion Slots	2-PCI, 1-PCI-Express x16, 1-PCI-Express x1		
		Serial Ports	2 Ports		
		USB Ports	15 Ports/Main Board 4 Ports, USB 2.0 Hub 11Ports		
		VGA	On-Board Dual VGA (DVI, RGB)		
		LAN	10/100/1000Mbps On-Board		
Status Display LED	HDD / PWR LED				
2	Customer Display	Display	Type	15" TFT LCD	
			Resolution	XVGA 1024x768	
			Brightness	270 cd/m ²	
		Input Method	Touch Screen	15" Infrared Touch Screen	
		Privacy Filter	Size	15"	
			Viewing Angle	60 Degree	
		Guide Light	Flicker	SPR, MCU, BRM	
Indicator	EPP				



3	Customer Input	Pin-Pad	Poly EPP (PCI Compliant)		
4	Method	Touch Screen	IR Type Touch Screen		
		Function Key	Function Key (Braille)		
		Biometric Device	Yes, FingerPrint Scanner		
5	Card Reader	Type	Dip Type with Anti-skimming		
		Magnetic Stripe	ISO 1,2,3 Read / Write		
		EMV Level-1,2	Available (IC CARD)		
		Bezel Color	Black		
6	Receipt Printer	Printing Type	Thermal Line Printing		
		Printing speed	100mm/sec		
		Printing Width	80mm Max		
		Paper Type	Thermal Roll Paper		
		Specification	Width	Max. 80mm	
			Inner Diameter	18Φ	
			Outer Diameter	Max. 210Φ	
		Paper Roll Capacity	Approx. 5,000 Transactions, 114mm/txn		
Black Mark Paper Support	Black Mark Paper Option				
7	JPR (Optional)	Journal Printer	E-JPR		
8	Dispenser Unit	Interface Type	USB 1.1(Main)		
			USB 2.0(BC)		
		Sutter type	Automatic Shutter		
		Functional Architecture	4 Dispense Cassette/1 RJC with Lock and Key		
		Dispense	Denomination	A Dispense	
				B Dispense	
				C Dispense	
				D Dispense	
			Dispense MAX	50 bills per Transaction	
			Method	Bundle	
Dispense CST	3000 per cassette				
REJECT CST	300 Bills				
Dispensing Speed	Max 8 notes/sec				
9	Safety & Security	Safety	UL 291 Level-1(Front Access)		
		Locking device	Dual Combination OTC Lock		
		Key Lock	Common Key		
		Security	TSS Solution as per RBI		
		Camera	USB Camera (face)		
		Anti-Skimming Device	Yes		
		Mirror	Awareness Mirror		
10	Dimension &	Dimension (H X W X D)	1,438 X 460 X 760 (mm)		



	Environment	Install Method	Anchor	
		Weight	About 350 Kg	
		Battery	NA	
TERMINAL SECURITY SOLUTION (OFFLINE)				
TS solution covered following things as per RBI circular.				
12	TERMINAL SECURITY SOLUTION (OFFLINE)	1. BIOS password.		
		2. Disabling USB port.		
		3. Disabling autorun facility.		
		4. Applying latest OS patch.		
		5. Terminal security solution.	A. HDD Encryption.	
			B. OS hardening.	
			C. Network isolation.	
		6. Time based admin access.		
		7. Whitelisting solution.		
8. Anti-Skimming	device already included in machine offered HW configuration.			
9. Logical Access control.				
13	The CD has provision for grouting i.e. bolting the CD with the ground			
14	OEM should have pan India service support with toll free access to support center.			
15	The bidder/OEM should have minimum 10,000 nos. of deployment of CDs in India.			
16	The Bidder/OEM should have supplied to any SCB/DCCB in India			
17	Manufacturing should have ISO certification 14001 and 9001.			

